

ये अव्यक्त इशारे

“अव्यक्त साइलेन्स द्वारा डबल लाइट फरिश्ता
स्थिति का अनुभव करो”

17-01-2024

जैसे शुरू-शुरू में अभ्यास करते थे -चल रहे हैं लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते कि यह कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था, इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे -यही सेप्टी है। अन्दर आवे और लाइट का किला देखे।

Accumulate the power of silence.

In the beginning, you used to practise: You are moving, but your stage was such that others would feel, that a light is passing by them. They were not able to see your body. With this practice, you passed every type of paper. Now that the times to come will be very bad, increase the practice of being double light. When others constantly see your form of light, that is your safety. When they enter, let them only see a fortress of light.